



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 28, 2008/फाल्गुन 9, 1929
No. 92] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 28, 2008/PHALGUNA 9, 1929

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2008

सा.का.नि. 115(अ).—केन्द्रीय सरकार, चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 (1982 का 4) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चीनी विकास निधि नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. चीनी विकास निधि नियम, 1983 में,—

(क) नियम 26 में,—

(i) उप-नियम (3) में “प्ररूप 9” शब्द और अंक के स्थान पर “प्ररूप 11” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम (14) के पश्चात् आने वाले “प्ररूप सं. 9” का लोप किया जाएगा ;

(iii) “प्ररूप 10” के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा,—

“प्ररूप सं. 11

(नियम 26 देखें)

आधुनिकीकरण/पुनर्वास की स्कीम का वित्तपोषण करने के लिए संप्रवर्तक के अभिदाय के लिए चीनी विकास निधि से लिए गए उधार के पुनर्सूचीकरण के लिए आवेदन

1. आवेक का नाम
2. पता :

(i) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय :

(ii) कारखाने की अवस्थिति :

3. गठन (चाहे वह सहकारी सोसाइटी या प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कम्पनी या संयुक्त सेक्टर या पब्लिक सेक्टर कम्पनी हो)

4. निगमन/रजिस्ट्रीकरण की तारीख :

5. प्रबंधन :

(क) निदेशक बोर्ड :

(ख) कार्यपालिक गठन :

6. औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड या पुनर्वास समिति के आदेश या प्रारूप पुनर्वास स्कीम की विशिष्टियां :

7. प्रस्तावित पुनर्वास की स्कीम का संक्षिप्त विवरण :

8. (क) कारखाने की विशिष्टियां :

पूर्व वर्ष आगामी 3 वर्षों के लिए प्रक्षेपण

(1) अनुज्ञात पेराई क्षमता (टी.सी.डी.)

(2) संस्थापित पेराई क्षमता (टी.सी.डी.)

(3) क्षेत्र, जिस पर गन्ने का उत्पादन किया जाता है (एकड़)

(4) औसत उपज (टन/एकड़)

(5) क्षेत्र में गन्ने का कुल उत्पादन (लाख टन)

(6) मौसम की कुल अवधि (दिन)

(7) मौसम की शुद्ध अवधि (दिन)

(8) पेराई किए गए कुल गन्ने (लाख टन)

(9) औसत चीनी की वसूली का प्रतिशत

(10) उत्पादित कुल चीनी (क्विटल)

टिप्पण : यदि संपादन स्वीकृत मानदण्डों के अनुरूप नहीं रहा है और यदि संपादन के कार्य में ज्यादा उतार-चढ़ाव रहा है, तो कृपया संक्षेप में इसके कारण बताएं।

(ख) कार्यकारी परिणाम :

पूर्व वर्ष आगामी 3 वर्षों के लिए प्रक्षेपण

- (1) शुद्ध विक्रय
- (2) सकल लाभ/हानि
- (3) निम्नलिखित पर ब्याज
- (क) सावधिक उधार
- (ख) कार्यकारी पूंजी
- (ग) जोड़
- (4) अवक्षयण
- (5) प्रचालन लाभ (हानि)
- (6) कर
- (7) शुद्ध लाभ/हानि
- (8) नकद प्रोद्भवन
- (9) भारत सरकार द्वारा नियत गन्ने का लागू कानूनी मूल्य (प्रति क्विंटल रुपए)
- (10) वास्तव में संदत्त गन्ने का मूल्य (प्रति क्विंटल रुपए)
- (11) गन्ने मूल्य के बकाए
- (ग) वित्तीय स्थिति :
- (1)(क) कुल नियत आस्तियाँ जिनके अंतर्गत चालू काम भी हैं।
- (ख) अवक्षयण घटाएँ
- (2) शुद्ध नियत आस्तियाँ
- (3) विनिधान
- (4) चालू आस्तियाँ
- (5) चालू दायित्व
- (6) कुल कार्यकारी पूंजी [(4)-(5)]
- (7) शुद्ध मूर्त आस्तियाँ [(2) + (3) (6)]
- (8) दीर्घकालिक दायित्व
- (9) शेयरधारक की योग्यता [(7) - (8)]
- (10) शेयर पूंजी जिसके अंतर्गत शेयर निलंबन और अप्रतिदेय जमा हैं
- (11) आरक्षित और आधिक्य
- (12) लाभ और हानि लेखे में घाटा और अमूर्त आस्तियाँ
- (13) शुद्ध मूल्य [(10) + (11) - (12)]
- (14) कारखाने/कंपनी की योजना के लिए नियत किए गए औसत का अनुपात जो पूर्ण रूप से :-
 - (क) पुनर्सूचीकरण के लिए आवेदन करते समय था
 - (ख) आरंभिक उधार के लिए आवेदन करते समय था
- (15) कारखाने/कंपनी की योजना की ऋण सेवा का अनुपात जो पूर्ण रूप से :-
 - (क) पुनर्सूचीकरण के लिए आवेदन करते समय था
 - (ख) आरंभिक उधार के लिए आवेदन करते समय था

9. चीनी विकास निधि से लिए गए उधार :

उधार का विवरण : उधार ब्याज शास्तिक ब्याज

10. (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या वित्तीय संस्थाओं या अनुसूचित बैंक या अन्य बैंकों या चीनी उपक्रम और अन्य अभिकरणों, यदि कोई हो, के कर्मचारियों से राहतें या रियायतें या दान का वर्णन, जो प्रारूप पुनर्वास स्कीम, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के आदेश या पुनर्वास समिति की सिफारिश में सम्मिलित हैं।
- (ख) क्या संबंधित अभिकरण चीनी उपक्रम के लिए इन राहतों/छूटों की व्यवस्था करने के लिए सहमत हो गए हैं? यदि हाँ, तो संबंधित अभिकरणों से प्राप्त सहमति पत्रों की प्रतियाँ, इस आवेदन प्ररूप के साथ दी जाएँ।
11. स्कीम के कार्यान्वयन की अनुसूची
12. कृपया स्कीम के कार्यान्वित होने पर विवेचनात्मक धारणाओं सहित 10 वर्षों के लिए प्राक्कलित लाभप्रदता/नकद प्रवाह के विवरणों का सारांश प्रस्तुत करें।

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

चीनी इकाई या कारखाने का नाम और पता ।''

स्थान :

तारीख :

[फा. सं. 11-8/2004-एस डी एफ]

अविनाश वर्मा, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (1) में, संख्यांक सा.का.नि. 752(अ), तारीख 28-9-1983 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए थे :

- (i) सा.का.नि. 817(अ), तारीख 20-12-1984
- (ii) सा.का.नि. 838(अ), तारीख 14-11-1985
- (iii) सा.का.नि. 551(अ), तारीख 6-5-1986
- (iv) सा.का.नि. 235(अ), तारीख 24-4-1991
- (v) सा.का.नि. 441(अ), तारीख 28-4-1992
- (vi) सा.का.नि. 435(अ), तारीख 6-5-1994
- (vii) सा.का.नि. 27(अ), तारीख 12-1-1996
- (viii) सा.का.नि. 656(अ), तारीख 21-11-1997
- (ix) सा.का.नि. 91(अ), तारीख 12-2-2001
- (x) सा.का.नि. 886(अ), तारीख 6-12-2001
- (xi) सा.का.नि. 443(अ), तारीख 21-6-2002
- (xii) सा.का.नि. 584(अ), तारीख 19-8-2002
- (xiii) सा.का.नि. 67(अ), तारीख 29-1-2003
- (xiv) सा.का.नि. 241(अ), तारीख 25-3-2003
- (xv) सा.का.नि. 787(अ), तारीख 6-10-2003

- (xvi) सा.का.नि. 895(अ), तारीख 19-11-2003
- (xvii) सा.का.नि. 953(अ), तारीख 17-12-2003
- (xviii) सा.का.नि. 72(अ), तारीख 23-1-2004
- (xix) सा.का.नि. 687(अ), तारीख 21-10-2004
- (xx) सा.का.नि. 739(अ), तारीख 9-11-2004
- (xxi) सा.का.नि. 149(अ), तारीख 2-3-2005
- (xxii) सा.का.नि. 451(अ) तारीख 4-7-2005
- (xxiii) सा.का.नि. 558(अ), तारीख 15-9-2006
- (xxiv) सा.का.नि. 118(अ), तारीख 9-3-2007
- (xxv) सा.का.नि. 697(अ), तारीख 7-11-2007
- (xxvi) सा.का.नि. 699(अ), तारीख 8-11-2007
- (xxvii) सा.का.नि. 738(अ), तारीख 29-11-2007
- (xxviii) सा.का.नि. 749(अ), तारीख 5-12-2007.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2008

G.S.R. 115(E).— In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Sugar Development Fund Act, 1982 (4 of 1982), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Sugar Development Fund Rules, 1983, namely:—

1. (1) These rules may be called the Sugar Development Fund (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Sugar Development Fund Rules, 1983,

(a) in rule 26

(i) in sub-rule (3), for the word and figures "FORM IX" the word and figures "FORM XI" shall be substituted;

(ii) the "FORM NO. IX" occurring after sub-rule (14) shall be omitted;

(b) after "Form X", the following Form shall be inserted,—

"Form No. XI

[See rule 26]

Application for reschedulement of loan taken from Sugar Development Fund towards promoters' contribution for financing modernization/rehabilitation scheme.

1. Name of the applicant :

2. Address :

(i) Registered Office :

(ii) Location of the factory :

3. Constitution (whether Co-operative Society or Private or Public Limited Company or Joint Sector/Public Sector Company) :

4. Date of incorporation/Registration :

5. Management :

(a) Board of Directors :

(b) Executive set-up :

6. Particulars of the Order or Draft Rehabilitation Scheme of the Board for Industrial and Financial Reconstruction or Committee for Rehabilitation.

7. Brief description of the proposed Scheme of rehabilitation:

8. (A) Particulars of the factory :

Previous year	Projection for next 3 years
---------------	-----------------------------

(1) Licensed crushing capacity (TCD)

(2) Installed crushing capacity (TCD)

(3) Area under sugarcane (acres)

(4) Average yield (tonnes/acre)

(5) Total production of sugarcane in the area (lakh tonnes)

(6) Gross duration of the season (days)

(7) Net duration of the season (days)

(8) Total cane crushed (lakh tonnes)

(9) Average sugar recovery %

(10) Total sugar produced (quintals)

Note : In case the performance has not been upto the accepted norms and if there has been wide fluctuation in the performance please state the reasons in brief.

(B) Working results: Previous year	Projection for Next 3 years
------------------------------------	-----------------------------

(1) Net sales

(2) Gross profit/loss

(3) Interest on :

(a) Term loan

(b) Working capital

(c) Total

(4) Depreciation

(5) Operation profit/loss

(6) Tax

(7) Net profit/loss

(8) Cash accruals

(9) Applicable statutory cane price fixed by the Government of India (rupees per quintal)

(10) Actual cane price paid (rupees per quintal)

(11) Cane Price Arrears.

(C) Financial Position :

(1) (a) Gross fixed assets including work-in-progress

(b) Less Depreciation

(2) Net fixed assets

(3) Investments

<p>(4) Current Assets</p> <p>(5) Current Liabilities</p> <p>(6) Net Working Capital [(4) minus (5)]</p> <p>(7) Net tangible assets [(2) + (3) - (6)]</p> <p>(8) Long-term liabilities</p> <p>(9) Shareholder's worth [(7) minus (8)]</p> <p>(10) Share capital including share suspense and non-refundable deposits</p> <p>(11) Reserves and surplus</p> <p>(12) Deficit in profit and loss account and Intangible assets</p> <p>(13) Net worth [(10) + (11) minus (12)]</p> <p>(14) Fixed Average Coverage Ratio for project of Factory/Company as a whole :</p> <p style="padding-left: 20px;">(a) at the time of applying for reschedulement</p> <p style="padding-left: 20px;">(b) at the time of applying for initial loan.</p> <p>(15) Debt Service Coverage Ratio of project of Factory/Company as a whole</p> <p style="padding-left: 20px;">(a) at the time of applying for reschedulement</p> <p style="padding-left: 20px;">(b) at the time of applying for initial loan.</p> <p>9. Loan taken from Sugar Development Fund :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Break up on loan :</td> <td style="width: 20%;">Loan</td> <td style="width: 20%;">Interest</td> <td style="width: 30%;">Penal Interest</td> </tr> </table> <p>10. (a) Details of the reliefs or concessions from the Central Government or State Government or Financial Institutions or Scheduled Bank and Other Banks or donations from the employees of the sugar undertaking and other agencies, if any, included in the Draft Rehabilitation Scheme Order of the Board for Industrial and Financial Reconstruction or Recommendation of the Committee of Rehabilitation.</p> <p style="padding-left: 40px;">(b) Whether the concerned agencies have agreed to provide these reliefs/concessions to the sugar undertakings? If so copies of the consent letters from the concerned agencies are to be provided alongwith this application form.</p> <p>11. Schedule of implementation of the scheme :</p> <p>12. Please furnish a summary of the projected profitability/ cash flow statements for 10 years on implementation of the scheme alongwith critical assumptions.</p> <p style="text-align: right; padding-right: 100px;">Signed by :</p> <p style="text-align: right; padding-right: 100px;">Name :</p> <p style="text-align: right; padding-right: 100px;">Designation :</p>	Break up on loan :	Loan	Interest	Penal Interest	<p>Name and address of the sugar unit or factory".</p> <p>Place :</p> <p>Date :</p> <p style="text-align: right;">[F. No. 11-8/2004-SDF]</p> <p style="text-align: right;">ABINASH VERMA, Director</p> <p>Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) , <i>vide</i> G.S.R. 752(E), dated the 28th September, 1983 and were subsequently amended by : —</p> <p>(i) G.S.R. 817(E), dated the 20th December, 1984</p> <p>(ii) G.S.R. 838(E), dated the 14th November, 1985</p> <p>(iii) G.S.R. 551(E), dated the 6th May, 1986</p> <p>(iv) G.S.R. 235(E), dated the 24th April, 1991</p> <p>(v) G.S.R. 441(E), dated the 28th April, 1992</p> <p>(vi) G.S.R. 435(E), dated the 6th May, 1994</p> <p>(vii) G.S.R. 27(E), dated the 12th January, 1996</p> <p>(viii) G.S.R. 656(E), dated the 21st November, 1997</p> <p>(ix) G.S.R. 91(E), dated the 12th February, 2001</p> <p>(x) G.S.R. 886(E), dated the 6th December, 2001</p> <p>(xi) G.S.R. 443(E), dated the 21st June, 2002</p> <p>(xii) G.S.R. 584(E), dated the 19th August, 2002</p> <p>(xiii) G.S.R. 67(E), dated the 29th January, 2003</p> <p>(xiv) G.S.R. 241(E), dated the 25th March, 2003</p> <p>(xv) G.S.R. 787(E), dated the 6th October, 2003</p> <p>(xvi) G.S.R. 895(E), dated the 19th November, 2003</p> <p>(xvii) G.S.R. 953(E), dated the 17th December, 2003</p> <p>(xviii) G.S.R. 72(E), dated the 23rd January, 2004</p> <p>(xix) G.S.R. 687(E), dated the 21st October, 2004</p> <p>(xx) G.S.R. 739(F.), dated the 9th November, 2004</p> <p>(xxi) G.S.R. 149(E), dated the 2nd March, 2005</p> <p>(xxii) G.S.R. 451(E) dated the 4th July, 2005</p> <p>(xxiii) G.S.R. 558(E), dated the 15th September, 2006</p> <p>(xxiv) G.S.R. 118(E), dated the 9th March, 2007</p> <p>(xxv) G.S.R. 697(E), dated the 7th November, 2007</p> <p>(xxvi) G.S.R. 699(E), dated the 8th November, 2007</p> <p>(xxvii) G.S.R. 738(E), dated the 29th November, 2007</p> <p>(xxviii) G.S.R. 749(E), dated the 5th December, 2007.</p>
Break up on loan :	Loan	Interest	Penal Interest		